



दिनांक-02.01.2023

थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियोग में प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तगणों को मय चोरी के माल व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी डेरापुर के कुशल नेतृत्व में थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी के अभियोग में प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तगणों को मय चोरी के माल व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है।

विदित हो कि वादिनी बेबी पत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र निवासी वार्ड नंबर 15 शंकरगंज झींझक थाना मंगलपुर कानपुर देहात द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 26.11.22 को अज्ञात चोरो द्वारा प्रार्थिनी के घर व दुकान का ताला तोड़कर चोरी की गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0- 433/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था तथा वादी बृजेंद्र सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह निवासी नेहरू नगर झींझक थाना मंगलपुर कानपुर देहात द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 13/14.12.22 की रात को अज्ञात चोरो द्वारा मेरी दुकान का ताला तोड़कर नगद रूपये व दुकान का सामान चोरी कर लिए हैं जिसके सम्बन्ध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0- 461/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये व मुखबिर खास की सूचना पर 03 नफर अभियुक्तगणों 1.अंशू पुत्र अमर लाल 2. रामकेश पुत्र श्री शंकर निवासी निवासीगण मुण्डेरा किन्नर सिंह थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात 3.जीतू पुत्र विश्वनाथ निवासी लगरथा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अंशू उपरोक्त से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 03/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मंगलपुर व अभियुक्त जीतू उपरोक्त से एक अदद चाकू बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 04/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मंगलपुर कानपुर देहात पर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अंशू पुत्र अमर लाल निवासी मुण्डेरा किन्नर सिंह थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2. जीतू पुत्र विश्वनाथ निवासी लगरथा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
3. रामकेश पुत्र श्री शंकर निवासी मुण्डेरा किन्नर सिंह थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात

अभियुक्तगणों से बरामदगी-

- 1.अभियुक्त अंशू से - एक तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अगूठी पीली धातु व 520 रूपये

2. अभियुक्त जीतू से- एक अदद चाकू व एक अंगुठी पीली धातु की व 730/- रूपये

3. अभियुक्त रामकेश से- एक अदद गुच्छा सफेद धातु का व 750/- रूपये

अभियुक्त अंशू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-295/20 धारा 325/504/506 भादवि थाना रसूलाबाद कानपुर देहात

2. मु0अ0स0-256/15 धारा 379/411 भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

3. मु0अ0स0-402/18 धारा 452/323/504/506/427 भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

4. मु0अ0सं0- 433/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

5. मु0अ0सं0- 461/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

6. मु0अ0सं0 03/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मंगलपुर कानपुर देहात

अभियुक्त जीतू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 433/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

2. मु0अ0सं0- 461/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

3. मु0अ0सं0 04/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मंगलपुर कानपुर देहात

अभियुक्त रामकेश का-

1. मु0अ0सं0- 433/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

2. मु0अ0सं0- 461/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना मंगलपुर कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अतुल गौतम चौकी प्रभारी चौकी झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

2. का0 935 नितेश पाल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

3. का0 681 विशाल चौधरी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

4. का0 1079 अजय प्रताप थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

5. का0 353 जयन्त चौधरी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

**मीडिया सेल
जनपद कानपुर देहात**